

प्रेस नोट दिनांक: 20.07.2019 जनपद प्रयागराज

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें, मुख्यालय लखनऊ द्वारा सीसीटीएनएस योजना में सिटीजन सर्विसेज के लिये UPCOP Mobile app विकसित किया गया है। उक्त एप्प के अन्तर्गत आम नागरिक सीधे आन-लाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा सम्बन्धित थाने/डी0सी0आर0बी0/एल0आई0यू0 की रिपोर्ट के उपरान्त ही सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को पोर्टल पर आन-लाइन उपलब्ध कर सकते हैं पूर्व में केवल सम्बन्धित थाने के लिये ही यह व्यवस्था थी। वर्तमान में सत्यापन के लिये प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित थाने के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद के डीसीआरबी/एल0आई0यू0 को भी स्वतः प्रेषित हो जायेगी जो अपने यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ खोलकर नियत अवधि में रिपोर्ट सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी को प्रेषित कर देंगे।

➤ पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली निम्नलिखित सर्विसेज वर्तमान में e-district portal से भी इंटीग्रेट करायी जा चुकी है एवं प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे हैं-

- 01- चरित्र प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध
- 02- घरेलू सहायता सत्यापन हेतु अनुरोध
- 03- कर्मचारी सत्यापन हेतु अनुरोध
- 04- किरायेदार सत्यापन हेतु अनुरोध

❖ उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जिन प्रमाण-पत्रों पर उनके डिजिटल हस्ताक्षर से e-district portal पर जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वैसी प्रक्रिया को आन-लाइन बनाने के लिये जिलाधिकारी के e-district portal को CCTNS portal से जोड़ दिया गया है जिसमें निम्न सर्विसेज हैं-

- 01- विरोध/हड़ताल पंजीकरण
- 02- कार्यक्रम/प्रदर्शन निवेदन
- 03- जुलूस अनुरोध
- 04- फिल्म शूटिंग
- 05- चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध – ठेकेदारी हेतु

जनपद प्रयागराज के समस्त पुलिस प्रमुख/प्रभारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा CCTNS portal से जिलाधिकारी के e-district portal पर ऑन लाइन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

उक्त UPCOP mobile app एण्ड्रायड (Android) और आईओएस (iOS) दोनों सिस्टम पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की आनलाइन एफआईआर (e-FIR), खोये वस्तुओं का पंजीकरण साइबर जागरूकता व आम नागरिकों के प्रयोगार्थ विभिन्न तरह की सुविधायें हैं। इसमें साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराध भी बिना थाने गये हुए on-line पंजीकृत कराये जा सकते हैं एवं उसकी प्रति सीधे वादी के मोबाइल में आ जाती है। वादी द्वारा यदि ओटीपी आदि बताने की गलती न की गयी हो तो on-line साइबर अपराध होने के तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित बैंक को FIR की कापी देने पर खोई हुई धनराशि वादी के खाते में वापस चली जाती है।



UPCOP App की प्रमुख विशेषताए:-

01- ई-प्राथमिकी पंजीकरण-	04- अपना थाना जाने	16- जुलूस अनुरोध
(a) वाहन चोरी	05- दुर्घटना चेतावनी क्षेत्र	17- विरोध /हड़ताल पंजीकरण
(b) वाहन लूट	06- चुराये गये/बरामद वाहन	अनुरोध
(c) चेन/पर्स/बैग/मोबाइल स्नैचिंग	07- सूचनायें साझा करें	18- कार्यक्रम/प्रदर्शन निवेदन
(d) सामान्य चोरी	08- खराब व्यवहार	19- फिल्म शूटिंग
(e) नकबजनी	09- वरिष्ठ नागरिक	20- स्थिति खोजे/डाउनलोड करें
(f) नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी	10- दिव्यांग	21- इनामी अपराधी
(g) लूट	11- चरित्र प्रमाण पत्र	22- गिरफ्तार अभियुक्त
(h) डकैती	12- किरायेदार सत्यापन	23- लापता व्यक्ति
(i) साइबर अपराध	13- घरेलू सहायता सत्यापन	24- अज्ञात शव
02- प्राथमिकी देखें	14- कर्मचारी सत्यापन	25- साइबर जागरूकता
03- खोयी वस्तु का पंजीकरण	15- पोस्टमार्टम रिपोर्ट	26- आपातकालीन हेल्पलाइन
		27- फोन मिलाएं

सोशल मीडिया सेल
जनपद प्रयागराज